

ይት ከ/ ከ/ / English en

II 2

■ Nandani

■ Wiehan de Jager

■ Southern African Folktale



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>

Attribution 3.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



■ Nandani (hi)

■ Wiehan de Jager

■ Southern African Folktale

የት ብሔት / Children of wax

globalstorybooks.net

Global Storybooks



Children of wax

የት ብሔት



एक समय की बात है, एक बहुत ही खुशहाल परिवार
था।


...


Once upon a time, there lived a happy
family.

They never fought with each other.
They helped their parents at home and
in the fields.

...

፩፻፭፻፭ የሚከተለ አስተያየት ቀን ዘመን ተከራክረዋል
፩፻፭፻፭ የሚከተለ አስተያየት ቀን ዘመን ተከራክረዋል





पर उन्हें आग के पास जाने की अनुमति नहीं थी।

...

But they were not allowed to go near a fire.

And as the sun rose, he flew away
singling into the morning light.

...



ሰላም የሰነድ ማኅበር
ሰላም የሰነድ ማኅበር


They had to do all their work during the
night. Because they were made of wax!

...

ሰላም የሰነድ ማኅበር

ሰላም የሰነድ ማኅበር





लेकिन उन में से एक लड़के की सूरज की रोशनी में
जाने की इच्छा थी।

...

But one of the boys longed to go out in
the sunlight.


वे अपने चिड़िया बने भाई को एक ऊँचे पहाड़ पर ले
गए।

...

They took their bird brother up to a
high mountain.

One day the longing was too strong. His
brothers warned him...
...

እኔ ተፈጥሮ የሚከተሉ ነው ስለዚህ የሚከተሉ ነው...
አሁን የሚከተሉ ነው ይችላል ይችላል የሚከተሉ ነው



But they made a plan. They shaped the
lump of melted wax into a bird.
...

የሚከተሉ ነው ስለዚህ የሚከተሉ ነው
የእኔ ተፈጥሮ የሚከተሉ ነው ይችላል ይችላል የሚከተሉ ነው






पर बहुत देर हो चुकी थी! वह गर्म धूप में पिघल गया था।

...

But it was too late! He melted in the hot sun.



अपने भाई को पिघलता देख मोम के बच्चे बहुत उदास हो गए।

...

The wax children were so sad to see their brother melting away.